



स मा चार

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश समाचार

विधान सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

भोपाल : 14 अगस्त, 2017

मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह तथा नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह ने स्वाधीनता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा ने अपने शुभकामना संदेश में प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा है कि स्वतंत्रता दिवस हमें उन बलिदानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि हमें उन्हीं अमर सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए अपने आप में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना होगा।

अपने शुभकामना संदेश में विधान सभा उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह ने कहा है कि इस अवसर पर हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और सहयोग की भावना के साथ मिल-जुल कर देश के साहसी सपूतों के सपनों को साकार करने का संकल्प लेना होगा ताकि हम देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाकर उसे प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकें।

नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की कामना करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता दिवस का पर्व देश की अस्मिता की रक्षा के लिये प्राण-पण से संकल्प को दोहराने का दिन है।

विधान सभा अध्यक्ष कल प्रातः 8 बजे होशंगाबाद संभागीय मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे। विधान सभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जायेगा, तदुपरांत वे परेड का निरीक्षण कर सलामी लेंगे।

समाचार

विधान सभा सचिवालय में ध्वजारोहण प्रातः 8 बजे

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में स्वाधीनता दिवस (15 अगस्त) को प्रातः 08:00 बजे ध्वजारोहण होगा। विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह सचिवालय प्रांगण में ध्वजारोहण करेंगे तथा परेड की सलामी लेंगे। ध्वजारोहण पश्चात् देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान सभा भवन को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है।

वि.स./ज.स./2017

(मुकेश मिश्रा)
अवर सचिव